



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 चैत्र 1935 (श0)
(सं0 पटना 258) पटना, मंगलवार, 26 मार्च 2013

वित्त विभाग

अधिसूचना

26 मार्च 2013

सं० एम-4-46/2012-3242/वि0(2)—वित्त विभागीय अधिसूचना सं०-4343 दिनांक 17.07.2006 द्वारा राज्य सरकार के सिविल पेंशन भोगियों के पेंशन को भुगतान हेतु सरकारी क्षेत्र बैंकों यथा, स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इन्डिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इन्डिया, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक एवं इलाहाबाद बैंक के साथ-साथ सरकारी क्षेत्र के सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को सम्मिलित किया गया है।

इसी संदर्भ में बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-203(क) में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक “आई०डी०बी०आई० बैंक लि०” को भी राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन के भुगतान बैंक के माध्यम से करने की योजना में सम्मिलित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मो० सउद,

सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 258-571+50-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>